

होसेअ

नबी का खानदान इसराईल की अलामत है

1 ज़ैल में रब का वह कलाम दर्ज है जो उन दिनों में होसेअ बिन बैरी पर नाज़िल हुआ जब उज़्ज़ियाह, यूताम, आखज़ और हिज़क्रियाह यहदाह के बादशाह और यरुबियाम बिन युआस इसराईल का बादशाह था।

2 जब रब पहली बार होसेअ से हमकलाम हुआ तो उसने हुक्म दिया, “जा, ज़िनाकार औरत से शादी कर और ज़िनाकार बच्चे पैदा कर, क्योंकि मुल्क रब की पैरवी छोड़कर मुसलसल ज़िना करता रहता है।” 3 चुनाँचे होसेअ की जुमर बित्त दिबलायम से शादी हुई। उसका पाँव भारी हुआ, और बेटा पैदा हुआ। 4 तब रब ने होसेअ से कहा, “उसका नाम यज़्ज़एल रखना। क्योंकि जल्द ही मैं याह के खानदान को यज़्ज़एल में उस कत्लो-गारत की सज़ा दूँगा जो उससे सरज़द हुई। साथ साथ मैं इसराईली बादशाही को भी खत्म करूँगा। 5 उस दिन मैं मैदाने-यज़्ज़एल में इसराईल की कमान को तोड़ डालूँगा।”

6 इसके बाद जुमर दुबारा उम्मीद से हुई। इस बार बेटा पैदा हुई। रब ने होसेअ से कहा, “इसका नाम लोस्हामा यानी ‘जिस पर रहम न हुआ हो’ रखना, क्योंकि आइंदा मैं इसराईलियों पर रहम नहीं करूँगा बल्कि वह मेरे रहम से सरासर महरूम रहेंगे।

7 लेकिन यहदाह के बाशिंदों पर मैं रहम करके उन्हें छुटकारा दूँगा। मैं उन्हें कमान, तलवार, जंग के हथियारों, घोड़ों या घुड़सवारों की मारिफ़त छुटकारा नहीं दूँगा बल्कि मैं जो रब उनका ख़ुदा हूँ ख़ुद ही उन्हें नजात दूँगा।”

8 लोस्हामा का दूध छुड़ाने पर जुमर फिर हामिला हुई। इस मरतबा बेटा पैदा हुआ। 9 तब रब ने फ़रमाया, “इसका नाम लोअम्मी यानी ‘मेरी क़ौम नहीं’ रखना। क्योंकि तुम मेरी क़ौम नहीं, और मैं तुम्हारा ख़ुदा नहीं हूँगा।

10 लेकिन वह वक़्त आएगा जब इसराईली समुंदर की रेत जैसे बेशुमार होंगे। न उनकी पैमाइश की जा सकेगी, न उन्हें गिना जा सकेगा। तब जहाँ उनसे कहा गया कि ‘तुम मेरी क़ौम नहीं’ वहाँ वह ‘ज़िंदा ख़ुदा के फ़रज़ंद’ कहलाएँगे। 11 तब यहदाह और इसराईल के लोग मुत्तहिद हो जाएंगे और मिलकर एक राहनुमा मुकर्रर

करेंगे। फिर वह मुल्क में से निकल आएँगे, क्योंकि यज़्रएल * का दिन अज़ीम होगा!

2

1 उस वक्रत अपने भाइयों का नाम अम्मी यानी 'मेरी क्रौम' और अपनी बहनों का नाम रूहामा यानी 'जिस पर रहम किया गया हो' रखो।

इसराईल बेवफ़ा जुमर की मानिंद है

2 अपनी माँ इसराईल पर इलज़ाम लगाओ, हाँ उस पर इलज़ाम लगाओ! क्योंकि न वह मेरी बीवी है, न मैं उसका शौहर हूँ। वह अपने चेहरे से और अपनी छातियों के दरमियान से ज़िनाकारी के निशान दूर करे, 3 वरना मैं उसके कपड़े उतारकर उसे उस नंगी हालत में छोड़ूँगा जिसमें वह पैदा हुई। मैं होने दूँगा कि वह रेगिस्तान और झुलसती ज़मीन में तबदील हो जाए, कि वह प्यास के मारे मर जाए। 4 मैं उसके बच्चों पर भी रहम नहीं करूँगा, क्योंकि वह ज़िनाकार बच्चे हैं। 5 उनकी माँ ने ज़िना किया, उन्हें जन्म देनेवाली ने शर्मनाक हरकतें की हैं। वह बोली, 'मैं अपने आशिकों के पीछे भाग जाऊँगी। आखिर मेरी रोटी, पानी, ऊन, कतान, तेल और पीने की चीज़ें वही मुहैया करते हैं।'

6 इसलिए जहाँ भी वह चलना चाहे वहाँ मैं उसे काँटेदार झाड़ियों से रोक दूँगा, मैं ऐसी दीवार खड़ी करूँगा कि उसे रास्ते का पता न चले। 7 वह अपने आशिकों का पीछा करते करते थक जाएगी और कभी उन तक पहुँचेगी नहीं, वह उनका खोज लगाती रहेगी लेकिन उन्हें पाएगी नहीं। फिर वह बोलेगी, 'मैं अपने पहले शौहर के पास वापस जाऊँ, क्योंकि उस वक्रत मेरा हाल आज की निसबत कहीं बेहतर था।' 8 लेकिन वह यह बात जानने के लिए तैयार नहीं कि उसे अल्लाह ही की तरफ से सब कुछ मुहैया हुआ है। मैं ही ने उसे वह अनाज, मै, तेल और कसरत की सोना-चाँदी दे दी जो लोगों ने बाल देवता को पेश की। 9 इसलिए मैं अपने अनाज और अपने अंगूर को फ़सल की कटाई से पहले पहले वापस लूँगा। जो ऊन और कतान मैं उसे देता रहा ताकि उस की बरहनगी नज़र न आए उसे मैं उससे छीन लूँगा। 10 उसके आशिकों के देखते देखते मैं उसके सारे कपड़े उतारूँगा, और कोई उसे मेरे हाथ से नहीं बचाएगा। 11 मैं उस की तमाम खुशियाँ बंद कर दूँगा। न कोई ईद, न नए चाँद का तहवार, न सबत का दिन या बाकी कोई मुकर्ररा जशन मनाया

* 1:11 यानी अल्लाह बीज बोता है।

जाएगा। 12 मैं उसके अंगूर और अंजीर के बागों को तबाह करूँगा, उन चीजों को जिनके बारे में उसने कहा, 'यह मुझे आशिकों की खिदमत करने के एवज़ मिल गई है।' मैं यह बाग जंगल बनने दूँगा, और जंगली जानवर उनका फल खाएँगे।

13 रब फ़रमाता है कि मैं उसे उन दिनों की सज़ा दूँगा जब उसने बाल के बुतों को बख़ूर की कुरबानियाँ पेश कीं। उस वक़्त वह अपने आपको बालियों और ज़ेवरात से सजाकर अपने आशिकों के पीछे भाग गई। मुझे वह भूल गई।

अल्लाह वफ़ादार रहता है

14 चुनौचे अब मैं उसे मनाने की कोशिश करूँगा, उसे रेगिस्तान में ले जाकर उससे नरमी से बात करूँगा। 15 फिर मैं उसे वहाँ से होकर उसके अंगूर के बाग वापस करूँगा और वादीए-अकूर * को उम्मीद के दरवाज़े में बदल दूँगा। उस वक़्त वह खुशी से मेरे पीछे होकर वहाँ चलेगी, बिलकुल उसी तरह जिस तरह जवानी में करती थी जब मेरे पीछे होकर मिसर से निकल आई।”

16 रब फ़रमाता है, “उस दिन तू मुझे पुकारते वक़्त ‘ऐ मेरे बाल’ † नहीं कहेगी बल्कि ‘ऐ मेरे खाविद।’ 17 मैं बाल देवताओं के नाम तेरे मुँह से निकाल दूँगा, और तू आइंदा उनके नामों का जिक्र तक नहीं करेगी। 18 उस दिन मैं जंगली जानवरों, परिदों और रेंगेवाले जानदारों के साथ अहद बाँधूँगा ताकि वह इसराइल को नुक़सान न पहुँचाएँ। कमान और तलवार को तोड़कर मैं जंग का ख़तरा मुल्क से दूर कर दूँगा। सब आरामो-सुकून से ज़िंदगी गुज़रेंगे।

19 मैं तेरे साथ अबदी रिश्ता बाँधूँगा, ऐसा रिश्ता जो रास्ती, इनसाफ़, फ़ज़ल और रहम पर मबनी होगा। 20 हाँ, जो रिश्ता मैं तेरे साथ बाँधूँगा उस की बुनियाद वफ़ादारी होगी। तब तू रब को जान लेगी।”

21 रब फ़रमाता है, “उस दिन मैं सुनूँगा। मैं आसमान की सुनकर बादल पैदा करूँगा, आसमान ज़मीन की सुनकर बारिश बरसाएगा, 22 ज़मीन अनाज, अंगूर और ज़ैतून की सुनकर उन्हें तक़वियत देगी, और यह चीज़ें मैदाने-यज़्ज़एल ‡ की सुनकर कसरत से पैदा हो जाएँगी। 23 उस वक़्त मैं अपनी खातिर इसराइल का बीज मुल्क में बो दूँगा। ‘लोस्हामा’ § पर मैं रहम करूँगा, और ‘लोअम्मी’ * से मैं कहूँगा, ‘तू मेरी क़ौम है।’ जवाब में वह बोलेंगी, ‘तू मेरा खुदा है।’”

* 2:15 यानी मुसीबत की वादी। † 2:16 बाल का मतलब ‘मालिक’ है। ‡ 2:22 अल्लाह बीज बोता है। § 2:23 जिस पर रहम न हुआ हो। * 2:23 मेरी क़ौम नहीं।

3

जुमर की तरह इसराईल को वापस खरीदा जाएगा

1 रब मुझसे हमकलाम हुआ, “जा, अपनी बीवी को दुबारा प्यार कर, हालाँकि उसका आशिक्र है जिससे उसने ज़िना किया है। उसे यों प्यार कर जिस तरह रब इसराईलियों को प्यार करता है, हालाँकि उनका सूख दीगर माबूदों की तरफ़ है और उन्हें उन्हीं की अंगूर की टिक्कियाँ पसंद हैं।”

2 तब मैंने चाँदी के 15 सिक्के और जौ के 195 किलोग्राम देकर उसे वापस खरीद लिया। 3 मैंने उससे कहा, “अब तुझे बड़े अरसे तक मेरे साथ रहना है। इतने में न ज़िना कर, न किसी आदमी से सोहबत रख। मैं भी बड़ी देर तक तुझसे हमबिसतर नहीं हूँगा।”

4 इसराईल का यही हाल होगा। बड़ी देर तक न उनका बादशाह होगा, न राहनुमा, न कुरबानी का इंतज़ाम, न यादगार पत्थर, न इमाम का बालापोश। उनके पास बत तक भी नहीं होंगे। 5 इसके बाद इसराईली वापस आकर रब अपने खुदा और दाऊद अपने बादशाह को तलाश करेंगे। आखिरी दिनों में वह लरज़ते हुए रब और उस की भलाई की तरफ़ रूजू करेंगे।

4

इमामों पर रब का इलज़ाम

1 ऐ इसराईलियो, रब का कलाम सुनो! क्योंकि रब का मुल्क के बाशिंदों से मुक़दमा है। “इलज़ाम यह है कि मुल्क में न वफ़ादारी, न मेहरबानी और न अल्लाह का इरफ़ान है। 2 कोसना, झूट बोलना, चोरी और ज़िना करना आम हो गया है। रोज़ बरोज़ कत्लो-गारत की नई ख़बरेँ मिलती रहती हैं। 3 इसी लिए मुल्क में काल है और उसके तमाम बाशिंदे पज़मुरदा हो गए हैं। जंगली जानवर, परिंदे और मछलियाँ भी फ़ना हो रही हैं।

4 लेकिन बिलावज़ह किसी पर इलज़ाम मत लगाना, न खाहमखाह किसी की तंबीह करो! ऐ इमामो, मैं तुम्हीं पर इलज़ाम लगाता हूँ। 5 ऐ इमाम, दिन के वक़्त तू ठोकर खाकर गिरेगा, और रात के वक़्त नबी गिरकर तेरे साथ पड़ा रहेगा। मैं तेरी माँ को भी तबाह करूँगा। 6 अफ़सोस, मेरी क़ौम इसलिए तबाह हो रही है कि वह सहीह इल्म नहीं रखती। और क्या अजब जब तुम इमामों ने यह इल्म रद्द कर दिया है। अब मैं तुम्हें भी रद्द करता हूँ। आइंदा तुम इमाम की खिदमत अदा नहीं

करोगे। चूँकि तुम अपने खुदा की शरीरत भूल गए हो इसलिए मैं तुम्हारी औलाद को भी भूल जाऊँगा।

7 इमामों की तादाद जितनी बढ़ती गई उतना ही वह मेरा गुनाह करते गए। उन्होंने अपनी इज्जत ऐसी चीज़ के एवज़ छोड़ दी जो स्सवाई का बाइस है। 8 मेरी क्रौम के गुनाह उनकी खुराक हैं, और वह इस लालच में रहते हैं कि लोगों का कुसूर मज़ीद बढ़ जाए। 9 चुनाँचे इमामों और क्रौम के साथ एक जैसा सुलूक किया जाएगा। दोनों को मैं उनके चाल-चलन की सज़ा दूँगा, दोनों को उनकी हरकतों का अज़्र दूँगा। 10 खाना तो वह खाएँगे लेकिन सेर नहीं होंगे। ज़िना भी करते रहेंगे, लेकिन बेफ़ायदा। इससे उनकी तादाद नहीं बढ़ेगी। क्योंकि उन्होंने रब का खयाल करना छोड़ दिया है।

11 ज़िना करने और नई और पुरानी मै पीने से लोगों की अक्ल जाती रहती है। 12 मेरी क्रौम लकड़ी से दरियाफ़्त करती है कि क्या करना है, और उस की लाठी उसे हिदायत देती है। क्योंकि ज़िनाकारी की रूह ने उन्हें भटका दिया है, ज़िना करते करते वह अपने खुदा से कहीं दूर हो गए हैं। 13 वह पहाड़ों की चोटियों पर अपने जानवरों को कुरबान करते हैं और पहाड़ियों पर चढ़कर बलूत, सफ़ेदा या किसी और दरख़्त के खुशगवार साये में बखूर की कुरबानियाँ पेश करते हैं। इसी लिए तुम्हारी बेटियाँ इसमतफ़रोश बन गई हैं, और तुम्हारी बहुएँ ज़िना करती हैं। 14 लेकिन मैं उन्हें उनकी इसमतफ़रोशी और ज़िनाकारी की सज़ा क्यों दूँ जबकि तुम मर्द कसबियों से सोहबत रखते और देवताओं की खिदमत में इसमतफ़रोशी करनेवाली औरतों के साथ कुरबानियाँ चढाते हो? ऐसी हरकतों से नासमझ क्रौम तबाह हो रही है।

15 ऐ इसराईल, तू इसमतफ़रोश है, लेकिन यहूदाह खबरदार रहे कि वह इस जुर्म में मुलव्वस न हो जाए। इसराईल के शहरों जिलजाल और बैत-आवन * की कुरबानगाहों के पास मत जाना। ऐसी जगहों पर रब का नाम लेकर उस की हयात की कसम खाना मना है। 16 इसराईल तो जिद्दी गाय की तरह अड़ गया है। तो फिर रब उन्हें किस तरह सबज़ाज़ार में भेड़ के बच्चों की तरह चरा सकता है?

17 इसराईल † तो बुतों का इतहादी है, उसे छोड़ दे! 18 यह लोग शराब की

* **4:15** बैत-आवन यानी 'गुनाह का घर' से मुराद बैतेल है। † **4:17** होसेअ के इब्रानी मतन में यहाँ और मुतअद्दिद दीगर आयात में 'इफ़राईम' मुस्तामल है जिससे मुराद शिमाली मुल्के-इसराईल है।

महफिल से फ़ारिग होकर ज़िनाकारी में लग जाते हैं। वह नाजायज़ मुहब्बत करते करते कभी नहीं थकते। लेकिन इसका अज़्र उनकी अपनी बेइज्जती है। 19 आँधी उन्हें अपनी लपेट में लेकर उड़ा ले जाएगी, और वह अपनी कुरबानियों के बाइस शर्मिदा हो जाएंगे।

5

इसराईल और यहदाह दोनों कुसूरवार हैं

1 ऐ इमामो, सुनो मेरी बात! ऐ इसराईल के घराने, तवज्जुह दे! ऐ शाही खानदान, मेरे पैगाम पर गौर कर!

तुम पर फ़ैसला है, क्योंकि अपनी बुतपरस्ती से तुमने मिसफ़ाह में फंदा लगा दिया, तबूर पहाड़ पर जाल बिछा दिया 2 और शिन्तीम में गढा खुदवा लिया है। खबरदार! मैं तुम सबको सज़ा दूँगा।

3 मैं तो इसराईल को खूब जानता हूँ, वह मुझसे छुपा नहीं रह सकता। इसराईल अब इसमतफ़रोश बन गया है, वह नापाक है। 4 उनकी बुरी हरकतें उन्हें उनके खुदा के पास वापस आने नहीं देती। क्योंकि उनके अंदर ज़िनाकारी की रूह है, और वह रब को नहीं जानते। 5 इसराईल का तकब्बुर उसके खिलाफ़ गवाही देता है, और वह अपने कुसूर के बाइस गिर जाएगा। यहदाह भी उसके साथ गिर जाएगा।

6 तब वह अपनी भेड़-बकरियों और गाय-बैलों को लेकर रब को तलाश करेंगे, लेकिन बेफ़ायदा। वह उसे पा नहीं सकेंगे, क्योंकि वह उन्हें छोड़कर चला गया है। 7 उन्होंने रब से बेवफ़ा होकर नाजायज़ औलाद पैदा की है। अब नया चाँद उन्हें उनकी मौरूसी ज़मीनों समेत हड़प कर लेगा।

अपनी क़ौम पर अल्लाह का इलज़ाम

8 जिबिया में नरसिंगा फूँको, रामा में तुरम बजाओ! बैत-आवन में जंग के नारे बुलंद करो। ऐ बिनयमीन, दुश्मन तेरे पीछे पड़ गया है! 9 जिस दिन मैं सज़ा दूँगा उस दिन इसराईल वीरानो-सुनसान हो जाएगा। ध्यान दो कि मैंने इसराईली क़बीलों के बारे में क़ाबिले-एतमाद बातें बताई हैं।

10 यहदाह के राहनुमा उन जैसे बन गए हैं जो नाजायज़ तौर पर अपनी ज़मीन की हूद बढ़ा देते हैं। जवाब में मैं अपना ग़ज़ब मूसलाधार बारिश की तरह उन पर नाज़िल करूँगा। 11 इसराईल पर इसलिए जुल्म हो रहा है और उसका हक़ मारा

जा रहा है कि वह बेमानी बूतों के पीछे भागने पर तुला हुआ है। 12 मैं इसराईल के लिए पीप और यहदाह के लिए सडाहट का बाइस बनूँगा।

13 इसराईल ने अपनी बीमारी देखी और यहदाह ने अपने नासूर पर गौर किया। तब इसराईल ने असूर की तरफ रूजू किया और असूर के अजीम बादशाह को पैगाम भेजकर उससे मदद माँगी। लेकिन वह तुम्हें शफा नहीं दे सकता, वह तुम्हारे नासूर का इलाज नहीं कर सकता।

14 क्योंकि मैं शेरबबर की तरह इसराईल पर टूट पड़ूँगा और जवान शेरबबर की तरह यहदाह पर झपट पड़ूँगा। मैं उन्हें फाड़कर अपने साथ घसीट ले जाऊँगा, और कोई उन्हें नहीं बचाएगा। 15 फिर मैं अपने घर वापस जाकर उस वक्रत तक उनसे दूर रहूँगा जब तक वह अपना कुसूर तसलीम करके मेरे चेहरे को तलाश न करें। क्योंकि जब वह मुसीबत में फँस जाएंगे तब ही मुझे तलाश करेंगे।”

6

1 उस वक्रत वह कहेंगे, “आओ, हम रब के पास वापस चलें। क्योंकि उसी ने हमें फाड़ा, और वही हमें शफा भी देगा। उसी ने हमारी पिटाई की, और वही हमारी मरहम-पट्टी भी करेगा। 2 दो दिन के बाद वह हमें नए सिरे से जिंदा करेगा और तीसरे दिन हमें दुबारा उठा खड़ा करेगा ताकि हम उसके हज़ूर जिंदगी गुज़ारें। 3 आओ, हम उसे जान लें, हम पूरी जिद्द-जहद के साथ रब को जानने के लिए कोशिशें करें। वह ज़रूर हम पर जाहिर होगा। यह उतना यकीनी है जितना सूरज का रोज़ाना तुलू होना यकीनी है। जिस तरह मौसमे-बहार की तेज़ बारिश ज़मीन को सेराब करती है उसी तरह अल्लाह भी हमारे पास आएगा।”

4 “ऐ इसराईल, मैं तेरे साथ क्या करूँ? ऐ यहदाह, मैं तेरे साथ क्या करूँ? तुम्हारी मुहब्बत सुबह की धुंध जैसी आरिज़ी है। धूप में ओस की तरह वह जल्द ही काफ़ूर हो जाती है। 5 इसी लिए मैंने अपने नबियों की मारिफ़त तुम्हें पटख दिया, अपने मुँह के अलफ़ाज़ से तुम्हें मार डाला है। मेरे इनसाफ़ का नूर सूरज की तरह ही तुलू होता है। 6 क्योंकि मैं कुरबानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, भस्म होनेवाली कुरबानियों की निसबत मुझे यह पसंद है कि तुम अल्लाह को जान लो।

अदालत की फ़सल पक गई है

7 वह आदम शहर में अहद तोड़कर मुझसे बेवफ़ा हो गए। 8 जिलियाद शहर मुजरिमों से भर गया है, हर तरफ़ खून के दाग़ हैं। 9 इमामों के जत्थे डाकुओं की

मानिंद बन गए हैं। क्योंकि वह सिकम को पहुँचानेवाले रास्ते पर मुसाफिरों की ताक लगाकर उन्हें क़त्ल करते हैं। हाँ, वह शर्मनाक हरकतों से गुरेज़ नहीं करते। 10 मैंने इसराईल में ऐसी बातें देखी हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि इसराईल जिना करता है, वह अपने आपको नापाक करता है। 11 लेकिन यहूदाह पर भी अदालत की फ़सल पकनेवाली है।

जब कभी मैं अपनी क्रौम को बहाल करके

7

1 इसराईल को शफ़ा देना चाहता हूँ तो इसराईल का कुसूर और सामरिया की बुराई साफ़ ज़ाहिर हो जाती है। क्योंकि फ़रेब देना उनका पेशा ही बन गया है। चोर घरों में नक़ब लगाते जबकि बाहर गली में डाकुओं के जत्थे लोगों को लूट लेते हैं। 2 लेकिन वह खयाल नहीं करते कि मुझे उनकी तमाम बुरी हरकतों की याद रहती है। वह नहीं समझते कि अब वह अपने ग़लत कामों से घिरे रहते हैं, कि यह गुनाह हर वक़्त मुझे नज़र आते हैं। 3 अपनी बुराई से वह बादशाह को ख़ुश रखते हैं, उनके झूट से बुज़ुर्ग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। 4 सबके सब ज़िनाकार हैं। वह उस तपते तनूर की मानिंद हैं जो इतना गरम है कि नानबाई को उसे मज़ीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर वह आटा गूँधकर उसके ख़मीर होने तक इंतज़ार भी करे तो भी तनूर इतना गरम रहता है कि रोटी पक जाएगी। 5 हमारे बादशाह के जशन पर राहनुमा में पी पीकर मस्त हो जाते हैं, और वह कुफ़र बकनेवालों से हाथ मिलाता है। 6 यह लोग करीब आकर ताक में बैठ जाते हैं जबकि उनके दिल तनूर की तरह तपते हैं। पूरी रात को उनका गुस्सा सोया रहता है, लेकिन सुबह के वक़्त वह बेदार होकर शोलाज़न आग की तरह दहकने लगता है। 7 सब तनूर की तरह तपते तपते अपने राहनुमाओं को हड़प कर लेते हैं। उनके तमाम बादशाह गिर जाते हैं, और एक भी मुझे नहीं पुकारता।

8 इसराईल दीगर अक़वाम के साथ मिलकर एक हो गया है। अब वह उस रोटी की मानिंद है जो तवे पर सिर्फ़ एक तरफ़ से पक गई है, दूसरी तरफ़ से कच्ची ही है। 9 ग़ैरमुल्की उस की ताक़त खा खाकर उसे कमज़ोर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसे पता नहीं चला। उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसे मालूम नहीं हुआ। 10 इसराईल का तकब्बुर उसके खिलाफ़ गवाही देता है। तो भी न वह रब अपने ख़ुदा के पास वापस आ जाता, न उसे तलाश करता है।

11 इसराईल नासमझ कबूतर की मानिंद है जिसे आसानी से वरगलाया जा सकता है। पहले वह मिसर को मदद के लिए बुलाता, फिर असूर के पास भाग जाता है। 12 लेकिन ज्योंही वह कभी इधर कभी इधर दौड़ेंगे तो मैं उन पर अपना जाल डालूँगा, उन्हें उड़ते हुए परिंदों की तरह नीचे उतारूँगा। मैं उनकी यों तादीब करूँगा जिस तरह उनकी जमात को आगाह किया गया है।

13 उन पर अफ़सोस, क्योंकि वह मुझसे भाग गए हैं। उन पर तबाही आए, क्योंकि वह मुझसे सरकश हो गए हैं। मैं फ़िधा देकर उन्हें छुड़ाना चाहता था, लेकिन जवाब में वह मेरे बारे में झूट बोलते हैं। 14 वह खुलूसदिली से मुझसे इल्तिजा नहीं करते। वह बिस्तर पर लेटे लेटे 'हाय हाय' करते और गल्ला और अंगूर को हासिल करने के लिए अपने आपको ज़ख़मी करते हैं। लेकिन मुझसे वह दूर रहते हैं।

15 मैं ही ने उन्हें तरबियत दी, मैं ही ने उन्हें तकवियत दी, लेकिन वह मेरे खिलाफ़ बुरे मनसूबे बाँधते हैं। 16 वह तौबा करके वापस आ जाते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं, लिहाज़ा वह ढीली कमान जैसे बेकार हो गए हैं। चुनाँचे उनके राहनुमा कुफ़र बकने के सबब से तलवार की ज़द में आकर हलाक हो जाएंगे। इस बात के बाइस वह मिसर में मज़ाक़ का निशाना बन जाएंगे।

8

अल्लाह की बेवफ़ा क़ौम पर अदालत

1 नरसिंगा बजाओ! दुश्मन उकाब की तरह रब के घर पर झपट्टा मारने को है। क्योंकि लोगों ने मेरे अहद को तोड़कर मेरी शरीअत की खिलाफ़वरज़ी की है। 2 बेशक वह मदद के लिए चीखते-चिल्लाते हैं, 'ऐ हमारे खुदा, हम तो तुझे जानते हैं, हम तो इसराईल हैं।' 3 लेकिन हक़ीक़त में इसराईल ने वह कुछ मुस्तरद कर दिया है जो अच्छा है। चुनाँचे दुश्मन उसका ताक़क़ुब करे! 4 उन्होंने मेरी मरज़ी पूछे बग़ैर अपने बादशाह मुक़र्रर किए, मेरी मंज़ूरी के बग़ैर अपने राहनुमाओं को चुन लिया है। अपने सोने-चाँदी से अपने लिए बुत बनाकर वह अपनी तबाही अपने सर पर लाए हैं।

5 ऐ सामरिया, मैंने तेरे बछड़े को रद्द कर दिया है! मेरा गज़ब तेरे बाशिंदों पर नाज़िल होनेवाला है, क्योंकि वह पाक-साफ़ हो जाने के क़ाबिल ही नहीं! यह हालत कब तक जारी रहेगी? 6 ऐ इसराईल, जिस बछड़े की पूजा तू करता है उसे

दस्तकार ही ने बनाया है। सामरिया का बछड़ा खुदा नहीं है बल्कि पाश पाश हो जाएगा।

7 वह हवा का बीज बो रहे हैं और आँधी की फसल काटेंगे। अनाज की फसल तैयार है, लेकिन बालियाँ कहीं नज़र नहीं आती। इससे आटा मिलने का इमकान ही नहीं। और अगर थोड़ा-बहुत गंदुम मिले भी तो गैरमुल्की उसे हड़प कर लेंगे।

8 हाँ, तमाम इसराईल को हड़प कर लिया गया है। अब वह कौमों में ऐसा बरतन बन गया है जो कोई पसंद नहीं करता। 9 क्योंकि उसके लोग असूर के पास चले गए हैं। जंगली गधा तो अकेला रहता है, लेकिन इसराईल अपने आशिक को तोहफे देकर खुश रखने पर तुला रहता है। 10 लेकिन खाह वह दीगर कौमों में कितने तोहफे क्यों न तकसीम करें अब मैं उन्हें सज़ा देने के लिए जमा करूँगा। जल्द ही वह शहनशाह के बोझ तले पेचो-ताब खाने लगेंगे। 11 गो इसराईल ने गुनाहों को दूर करने के लिए मुतअद्दिद कुरबानगाहें तामीर कीं, लेकिन वह उसके लिए गुनाह का बाइस बन गई हैं। 12 खाह मैं अपने अहकाम को इसराईलियों के लिए हज़ारों दफा क्यों न कलमबंद करता, तो भी फ़रक न पड़ता, वह समझते कि यह अहकाम अजनबी हैं, यह हम पर लागू नहीं होते। 13 गो वह मुझे कुरबानियाँ पेश करके उनका गोशत खाते हैं, लेकिन मैं, रब इनसे खुश नहीं होता बल्कि उनके गुनाहों को याद करके उन्हें सज़ा दूँगा। तब उन्हें दुबारा मिसर जाना पड़ेगा। 14 इसराईल ने अपने खालिक को भूलकर बड़े महल बना लिए हैं, और यहदाह ने मुतअद्दिद शहरों को क़िलाबंद बना लिया है। लेकिन मैं उनके शहरों पर आग नाज़िल करके उनके महलों को भस्म कर दूँगा।”

9

इसराईल का अंजाम

1 ऐ इसराईल, खुशी न मना, दीगर अक़वाम की तरह शादियाना मत बजा। क्योंकि तू ज़िना करते करते अपने खुदा से दूर होता जा रहा है। जहाँ भी लोग गंदुम गाहते हैं वहाँ तू जाकर अपनी इसमतफ़रोशी के पैसे जमा करता है, यही कुछ तुझे प्यारा है। 2 इसलिए आइंदा गंदुम गाहने और अंगूर का रस निकालने की जगहें उन्हें खुराक मुहैया नहीं करेंगी, और अंगूर की फसल उन्हें रस मुहैया नहीं करेगी।

3 इसराईली रब के मुल्क में नहीं रहेंगे बल्कि उन्हें मिसर वापस जाना पड़ेगा, उन्हें असूर में नापाक चीज़ें खानी पड़ेंगी। 4 वहाँ वह रब को न मै की और न ज़बह

की कुरबानियाँ पेश कर सकेंगे। उनकी रोटी मातम करनेवालों की रोटी जैसी होगी यानी जो भी उसे खाए वह नापाक हो जाएगा। हाँ, उनका खाना सिर्फ उनकी अपनी भूक मिटाने के लिए होगा, और वह रब के घर में नहीं आएगा। 5 उस वक्त तुम ईदों पर क्या करोगे? रब के तहवारों को तुम कैसे मनाओगे? 6 जो तबाहशुदा मुल्क से निकलेंगे उन्हें मिसर इकट्ठा करेगा, उन्हें मेंफिस दफनाएगा। खुदरौ पौदे उनकी क्रीमती चाँदी पर कब्जा करेंगे, काँटेदार झाड़ियाँ उनके घरों पर छा जाएँगी।

7 सज़ा के दिन आ गए हैं, हिसाब-किताब के दिन पहुँच गए हैं। इसराईल यह बात जान ले। तुम कहते हो, “यह नबी अहमक है, रूह का यह बंदा पागल है।” क्योंकि जितना संगीन तुम्हारा गुनाह है उतने ही जोर से तुम मेरी मुखालफत करते हो।

8 नबी मेरे खुदा की तरफ से इसराईल का पहरेदार बनाया गया है। लेकिन जहाँ भी वह जाए वहाँ उसे फँसाने के फंदे लगाए गए हैं, बल्कि उसे उसके खुदा के घर में भी सताया जाता है। 9 उनसे निहायत ही खराब काम सरज़द हुआ है, ऐसा शरीर काम जैसा जिबिया के बाशिंदों से हुआ था। अल्लाह उनका कुसूर याद करके उनके गुनाहों की मुनासिब सज़ा देगा।

इसराईल शुरू से ही शरीर है

10 रब फरमाता है, “जब मेरा इसराईल से पहला वास्ता पड़ा तो रेगिस्तान में अंगूर जैसा लग रहा था। तुम्हारे बापदादा अंजीर के दरख्त पर लगे पहले पकनेवाले फल जैसे नज़र आए। लेकिन बाल-फ़गूर के पास पहुँचते ही उन्होंने अपने आपको उस शर्मनाक बुत के लिए मखसूस कर लिया। तब वह अपने आशिक्र जैसे मकरूह हो गए। 11 अब इसराईल की शानो-शौकत परिंदे की तरह उड़कर गायब हो जाएगी। आइंदा न कोई उम्मीद से होगी, न बच्चा जनेगी। 12 अगर वह अपने बच्चों को परवान चढ़ने तक पालें भी तो भी मैं उन्हें बेऔलाद कर दूँगा। एक भी नहीं रहेगा। उन पर अफ़सोस जब मैं उनसे दूर हो जाऊँगा। 13 पहले जब मैंने इसराईल पर नज़र डाली तो वह सूर की मानिंद शानदार था, उसे शादाब जगह पर पौदे की तरह लगाया गया था। लेकिन अब उसे अपनी औलाद को बाहर लाकर कातिल के हवाले करना पड़ेगा।”

14 ऐ रब, उन्हें दे! क्या दे? होने दे कि उनके बच्चे पेट में जाया हो जाएँ, कि औरतें दूध न पिला सकें।

15 रब फरमाता है, “जब उनकी तमाम बेदीनी जिलजाल में जाहिर हुई तो मैंने उनसे नफरत की। उनकी बुरी हरकतों की वजह से मैं उन्हें अपने घर से निकाल दूँगा। आइंदा मैं उन्हें प्यार नहीं करूँगा। उनके तमाम राहनुमा सरकश हैं। 16 इसराईल को मारा गया, लोगों की जड़ सूख गई है, और वह फल नहीं ला सकते। उनके बच्चे पैदा हो भी जाएँ तो मैं उनकी कीमती औलाद को मार डालूँगा।” 17 मेरा खुदा उन्हें रद्द करेगा, इसलिए कि उन्होंने उस की नहीं सुनी। चुनाँचे उन्हें दीगर अक्रवाम में मारे मारे फिरना पड़ेगा।

10

बुतपरस्ती के नतायज

1 इसराईल अंगूर की फलती-फूलती बेल था जो काफ़ी फल लाती रही। लेकिन जितना उसका फल बढ़ता गया उतना ही वह बुतों के लिए कुरबानगाहें बनाता गया। जितना उसका मुल्क तरक्की करता गया उतना ही वह देवताओं के मखसूस सतूनों को सजाता गया। 2 लोग दोदिले हैं, और अब उन्हें उनके कुसूर का अज्र भुगतना पड़ेगा। रब उनकी कुरबानगाहों को गिरा देगा, उनके सतूनों को मिसमार करेगा। 3 जल्द ही वह कहेंगे, “हम इसलिए बादशाह से महरूम हैं कि हमने रब का खौफ न माना। लेकिन अगर बादशाह होता भी तो वह हमारे लिए क्या कर सकता?” 4 वह बड़ी बातें करते, झूटी कसमें खाते और खाली अहद बाँधते हैं। उनका इनसाफ़ उन ज़हरीले खुदरौ पौदों की मानिंद है जो बीज के लिए तैयारशुदा ज़मीन से फूट निकलते हैं।

5 सामरिया के बाशिदे परेशान हैं कि बैत-आवन * में बछड़े के बुत के साथ क्या किया जाएगा। उसके परस्तार उस पर मातम करेंगे, उसके पुजारी उस की शानो-शौकत याद करके वावैला करेंगे, क्योंकि वह उनसे छिनकर परदेस में ले जाया जाएगा। 6 हाँ, बछड़े को मुल्के-असूर में ले जाकर शहनशाह को खराज के तौर पर पेश किया जाएगा। इसराईल की स्सवाई हो जाएगी, वह अपने मनसूबे के बाइस शरमिंदा हो जाएगा।

7 सामरिया नेस्तो-नाबूद, उसका बादशाह पानी पर तैरती हुई टहनी की तरह बेबस होगा। 8 बैत-आवन † की वह ऊँची जगहें तबाह हो जाएँगी जहाँ इसराईल

* 10:5 बैत-आवन यानी ‘गुनाह का घर’ से मुराद बैतेल है। † 10:8 बैत-आवन यानी ‘गुनाह का घर’ से मुराद बैतेल है।

गुनाह करता रहा है। उनकी कुरबानगाहों पर काँटेदार झाड़ियाँ और ऊँटकटारे छा जाएंगे। तब लोग पहाड़ों से कहेंगे, “हमें छुपा लो!” और पहाड़ियों को “हम पर गिर पड़ो!”

9 रब फरमाता है, “ऐ इसराईल, जिबिया के वाकिये से लेकर आज तक तू गुनाह करता आया है, लोग वहीं के वहीं रह गए हैं। क्या मुनासिब नहीं कि जिबिया में जंग उन पर टूट पड़े जो इतने शरीर हैं? 10 अब मैं अपनी मरज़ी से उनकी तादीब करूँगा। अक्रवाम उनके खिलाफ जमा हो जाएँगी जब उन्हें उनके दुग्ने कुसूर के लिए जंजीरों में जकड़ लिया जाएगा।

11 इसराईल जवान गाय था जिसे गंदुम गाहने की तरबियत दी गई थी और जो शौक से यह काम करती थी। तब मैंने उसके खूबसूरत गले पर जुआ रखकर उसे जोत लिया। यहदाह को हल खींचना और याकूब † को ज़मीन पर सुहागा फेरना था। 12 मैंने फरमाया, ‘इन्साफ़ का बीज बोकर शफ़क़त की फ़सल काटो। जिस ज़मीन पर हल कभी नहीं चलाया गया उस पर ठीक तरह हल चलाओ! जब तक रब को तलाश करने का मौक़ा है उसे तलाश करो, और जब तक वह आकर तुम पर इन्साफ़ की बारिश न बरसाए उसे ढूँडो।’

13 लेकिन जवाब में तुमने हल चलाकर बेदीनी का बीज बोया, तुमने बुराई की फ़सल काटकर फ़रेब का फल खाया है। चूँकि तूने अपनी राह और अपने सूरमाओं की बड़ी तादाद पर भरोसा रखा है 14 इसलिए तेरी क्रौम में जंग का शोर मचेगा, तेरे तमाम किले खाक में मिलाए जाएंगे। शलमन के बैत-अरबेल पर हमले के-से हालात होंगे जिसने उस शहर को ज़मीनबोस करके माओं को बच्चों समेत ज़मीन पर पटख़ दिया। 15 ऐ बैतेल के बाशिंदो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बदकारी हद से ज्यादा है। पौ फटते ही इसराईल का बादशाह नेस्त हो जाएगा।”

11

बेवफ़ाई के बावजूद अल्लाह की शफ़क़त

1 रब फरमाता है, “इसराईल अभी लड़का था जब मैंने उसे प्यार किया, जब मैंने अपने बेटे को मिसर से बुलाया। 2 लेकिन बाद में जितना ही मैं उन्हें बुलाता रहा उतना ही वह मुझसे दूर होते गए। वह बाल देवताओं के लिए जानवर चढ़ाने,

† 10:11 याकूब से मुराद इसराईल है।

बुतों के लिए बखूर जलाने लगे। ³ मैंने खुद इसराईल को चलने की तरबियत दी, बार बार उन्हें गोद में उठाकर लिए फिरा। लेकिन वह न समझे कि मैं ही उन्हें शफा देनेवाला हूँ। ⁴ मैं उन्हें खींचता रहा, लेकिन ऐसे रस्सों से नहीं जो इनसान बरदाशत न कर सके बल्कि शफकत भरे रस्सों से। मैंने उनके गले पर का जुआ हलका कर दिया और नरमी से उन्हें खुराक खिलाई।

⁵ क्या उन्हें मुल्के-मिसर वापस नहीं जाना पड़ेगा? बल्कि असूर ही उनका बादशाह बनेगा, इसलिए कि वह मेरे पास वापस आने के लिए तैयार नहीं। ⁶ तलवार उनके शहरों में घूम घूमकर ग़ैबदानों को हलाक करेगी और लोगों को उनके ग़लत मशवरों के सबब से खाती जाएगी। ⁷ लेकिन मेरी क्रौम मुझे तर्क करने पर तुली हुई है। जब उसे ऊपर अल्लाह की तरफ देखने को कहा जाए तो उसमें से कोई भी उस तरफ रूजू नहीं करता।

⁸ ऐ इसराईल, मैं तुझे किस तरह छोड़ सकता हूँ? मैं तुझे किस तरह दुश्मन के हवाले कर सकता, किस तरह अदमा की तरह दूसरों के कब्जे में छोड़ सकता, किस तरह ज़बोईम की तरह तबाह कर सकता हूँ? मेरा इरादा सरासर बदल गया है, मैं तुझ पर शफकत करने के लिए बेचैन हूँ। ⁹ न मैं अपना सख्त ग़ज़ब नाज़िल करूँगा, न दुबारा इसराईल को बरबाद करूँगा। क्योंकि मैं इनसान नहीं बल्कि खुदा हूँ, वह कुदूस जो तेरे दरमियान सुकूनत करता है। मैं ग़ज़ब में नहीं आऊँगा। ¹⁰ उस वक़्त वह रब के पीछे ही चलेंगे। तब वह शेरबबर की तरह दहाड़ेगा। और जब दहाड़ेगा तो उसके फ़रज़ंद मगरिब से लरज़ते हुए वापस आएँगे। ¹¹ वह परिदों की तरह फडफडाते हुए मिसर से आएँगे, थरथराते कबूतरों की तरह असूर से लौटेंगे। फिर मैं उन्हें उनके घरों में बसा दूँगा। यह मेरा, रब का फ़रमान है।

¹² इसराईल ने मुझे झूट से घेर लिया, फ़रेब से मेरा मुहासरा कर लिया है। लेकिन यहदाह भी मज़बूती से अल्लाह के साथ नहीं है बल्कि आवारा फिरता है, हालाँकि कुदूस खुदा वफ़ादार है।”

12

सरकशी की राम कहानी

¹ इसराईल हवा चरने की कोशिश कर रहा है, पूरा दिन वह मशरिकी लू के पीछे भागता रहता है। उसके झूट और जुल्म में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। असूर से अहद बाँधने के साथ साथ वह मिसर को भी जैतून का तेल भेज देता है।

2 रब अदालत में यहदाह से भी लड़ेगा। वह याकूब * को उसके चाल-चलन की सज़ा, उसके आमाल का मुनासिब अज़्र देगा। 3 क्योंकि माँ के पेट में ही उसने अपने भाई की एड़ी पकड़कर उसे धोका दिया। जब बालिग हुआ तो अल्लाह से लड़ा 4 बल्कि फ़रिश्ते से लड़ते लड़ते उस पर गालिब आया। फिर उसने रोते रोते उससे इल्लिजा की कि मुझ पर रहम कर। बाद में याकूब ने अल्लाह को बैतेल में पाया, और वहाँ खुदा उससे हमकलाम हुआ। 5 रब जो लशकरोँ का खुदा है और जिसका नाम रब ही है, उसने फ़रमाया, 6 “अपने खुदा के पास वापस आकर रहम और इनसाफ़ कायम रख! कभी अपने खुदा पर उम्मीद रखने से बाज़ न आ।”

7 इसराइल ताजिर है जिसके हाथ में गलत तराजू है और जिसे लोगों ने साजायज़ फ़ायदा उठाने का बड़ा शौक है। 8 वह कहता है, “मैं अमीर हो गया हूँ, मैंने कसरत की दौलत पाई है। कोई साबित नहीं कर सकेगा कि मुझसे यह तमाम मिलकियत हासिल करने में कोई कुसूर या गुनाह सरज़द हुआ है।”

9 “लेकिन मैं, रब जो मिसर से तुझे निकालते वक़्त आज तक तेरा खुदा हूँ मैं यह नज़रंदाज़ नहीं करूँगा। मैं तुझे दुबारा ख़ैमों में बसने दूँगा। यों होगा जिस तरह उन पहले दिनों में हुआ जब इसराइली मेरी परस्तिश करने के लिए रेगिस्तान में जमा होते थे। 10 मैं बार बार नबियों की मारिफ़त तुमसे हमकलाम हुआ, मैंने उन्हें मुतअदिद रोयाएँ दिखाई और उनके ज़रीए तुम्हें तमसीलें सुनाई।”

बुतपरस्ती का अज़्र ज़वाल है

11 क्या जिलियाद बेदीन है? उसके लोग नाकारा ही हैं! जिलजाल में लोगों ने साँड कुरबान किए हैं, इसलिए उनकी कुरबानगाहें मलबे के ढेर बन जाएँगी। वह बीज बोने के लिए तैयारशुदा खेत के किनारे पर लगे पत्थर के ढेर जैसी बनेंगी।

12 याकूब को भागकर मुल्के-अराम में पनाह लेनी पड़ी। वहाँ वह बीबी मिलने के लिए मुलाज़िम बन गया, औरत के बाइस उसने भेड़-बकरियों की गल्लाबानी की। 13 लेकिन बाद में रब नबी की मारिफ़त इसराइल को मिसर से निकाल लाया और नबी के ज़रीए उस की गल्लाबानी की। 14 तो भी इसराइल ने उसे बड़ा तैश दिलाया। अब उन्हें उनकी क़त्लो-गारत का अज़्र भुगतना पड़ेगा। उन्होंने अपने आका की तौहीन की है, और अब वह उन्हें मुनासिब सज़ा देगा।

* 12:2 याकूब से मुराद इसराइल है।

13

अल्लाह की तरफ से इसराईल की अदालत

1 पहले जब इसराईल ने बात की तो लोग काँप उठे, क्योंकि मुल्के-इसराईल में वह सरफ़राज़ था। लेकिन फिर वह बाल की बुतपरस्ती में मुलव्वस होकर हलाक हुआ। 2 अब वह अपने गुनाहों में बहुत इज़ाफ़ा कर रहे हैं। वह अपनी चाँदी लेकर महारत से बुत ढाल लेते हैं। फिर दस्तकारों के हाथ से बने इन बुतों के बारे में कहा जाता है, “जो बछड़े के बुतों को चूमना चाहे वह किसी इनसान को कुरबान करे!” 3 इसलिए वह सुबह-सवैरे की धुंध जैसे आरिज़ी और धूप में जल्द ही ख़त्म होनेवाली ओस की मानिंद होंगे। वह गाहते वक़्त गंदुम से अलग होनेवाले भूसे की मानिंद हवा में उड़ जाएंगे, घर में से निकलनेवाले धुएँ की तरह जाया हो जाएंगे।

4 “लेकिन मैं, रब तुझे मिसर से निकालते वक़्त से लेकर आज तक तेरा ख़ुदा हूँ। तुझे मेरे सिवा किसी और को ख़ुदा नहीं जानना है। मेरे सिवा और कोई नजातदहिंदा नहीं है। 5 रेगिस्तान में मैंने तेरी देख-भाल की, वहाँ जहाँ तपती गरमी थी। 6 वहाँ उन्हें अच्छी ख़ुराक मिली। लेकिन जब वह जी भरकर खा सके और सेर हुए तो मग़र्र होकर मुझे भूल गए। 7 यह देखकर मैं उनके लिए शेरबबर बन गया हूँ। अब मैं चीते की तरह रास्ते के किनारे उनकी ताक में बैटूँगा। 8 उस रीछनी की तरह जिसके बच्चों को छीन लिया गया हो मैं उन पर झपट्टा मारकर उनकी अंतड़ियों को फाड़ निकालूँगा। मैं उन्हें शेरबबर की तरह हड़प कर लूँगा, और जंगली जानवर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे।

9 ऐ इसराईल, तू इसलिए तबाह हो गया है कि तू मेरे खिलाफ़ है, उसके खिलाफ़ जो तेरी मदद कर सकता है। 10 अब तेरा बादशाह कहाँ है कि वह तेरे तमाम शहरों में आकर तुझे छुटकारा दे? अब तेरे राहनुमा किधर हैं जिनसे तूने कहा था, ‘मुझे बादशाह और राहनुमा दे दे।’ 11 मैंने गुम्से में तुझे बादशाह दे दिया और गुम्से में उसे तुझसे छीन भी लिया।

12 इसराईल का कुसूर लपेटकर गोदाम में रखा गया है, उसके गुनाह हिसाब-किताब के लिए महफूज़ रखे गए हैं। 13 दर्दे-ज़ह शुरू हो गया है, लेकिन वह नासमझ बच्चा है। वह माँ के पेट से निकलना नहीं चाहता।

14 मैं फ़िघा देकर उन्हें पाताल से क्यों रिहा करूँ? मैं उन्हें मौत की गिरिफ़्त से क्यों छोड़ाऊँ? ऐ मौत, तेरे काँटे कहाँ रहे? ऐ पाताल, तेरा डंक कहाँ रहा? उसे काम में ला, क्योंकि मैं तरस नहीं खाऊँगा। 15 ख़ाह वह अपने भाइयों के

दरमियान फलता-फूलता क्यों न हो तो भी रब की तरफ से मशरिकी लू उस पर चलेगी। और जब रेगिस्तान से आएगी तो इसराईल के कुएँ और चश्मे खुश्क हो जाएंगे। हर खजाना, हर कीमती चीज़ लूट का माल बन जाएगी। 16 सामरिया के बाशियों को उनके कुसूर की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वह अपने खुदा से सरकश हो गए हैं। दुश्मन उन्हें तलवार से मारकर उनके बच्चों को ज़मीन पर पटर ख देगा और उनकी हामिला औरतों के पेट चीर डालेगा।”

14

रब के पास वापस आओ!

1 ऐ इसराईल, तौबा करके रब अपने खुदा के पास वापस आ! क्योंकि तेरा कुसूर तेरे जवाल का सबब बन गया है। 2 अपने गुनाहों का इकरार करते हुए रब के पास वापस आओ। उससे कहो, “हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ करके हमें मेहरबानी से ऋबूल फरमा ताकि हम अपने होंटों से तेरी तारीफ करके तुझे मुनासिब कुरबानी अदा कर सकें। 3 असूर हमें न बचाए। आइंदा न हम घोड़ों पर सवार हो जाएंगे, न कहेंगे कि हमारे हाथों की चीज़ें हमारा खुदा हैं। क्योंकि तू ही यतीम पर रहम करता है।”

4 तब रब फरमाएगा, “मैं उनकी बेवफ़ाई के असरात खत्म करके उन्हें शफ़ा दूँगा, हों मैं उन्हें खुले दिल से प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा उन पर ग़ज़ब ठंडा हो गया है। 5 इसराईल के लिए मैं शबनम की मानिंद हूँगा। तब वह सोसन की मानिंद फूल निकालेगा, लुबनान के देवदार के दरख्त की तरह जड़ पकड़ेगा, 6 उस की कोंपलें फूट निकलेंगी, और शाखें बनकर फैलती जाएँगी। उस की शान जैतून के दरख्त की मानिंद होगी, उस की खुशबू लुबनान के देवदार के दरख्त की खुशबू की तरह फैल जाएगी।

7 लोग दुबारा उसके साथे में जा बसेंगे। वहाँ वह अनाज की तरह फलें-फूलेंगे, अंगूर के-से फूल निकालेंगे। दूसरे उनकी यों तारीफ करेंगे जिस तरह लुबनान की उम्दा मै की। 8 तब इसराईल कहेगा, ‘मेरा बुतों से क्या वास्ता?’ मैं ही तेरी सुनकर तेरी देख-भाल करूँगा। मैं जूनीपर का सायादार दरख्त हूँ, और तू मुझसे ही फल पाएगा।”

9 कौन दानिशमंद है? वह समझ ले। कौन साहबे-फ़हम है? वह मतलब जान ले। क्योंकि रब की राहें दुस्त हैं। रास्तबाज़ उन पर चलते रहेंगे, लेकिन सरकश उन पर चलते वक्रत ठोकर खाकर गिर जाएंगे।

किताबे-मुकद्दस

**The Holy Bible in the Urdu language, Urdu Geo
Version, Hindi Script**

Copyright © 2019 Urdu Geo Version

Language: اردو (Urdu)

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2023-11-29

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Feb 2024 from source files dated 30 Nov 2023

a1ee0020-7263-5fce-8289-9d7a7ac2d299